



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 640 राँची, गुरुवार

12 भाद्र, 1937 (श०)

3 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर, 2015

संख्या-06A/न०वि० /विविध -24/2015—3213-- राँची शहर के चिन्हित पांच प्रमुख सड़कों के समग्र विकास तथा इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन उपक्रम मेकॉन लिमिटेड, राँची की सेवाएं मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या 2841, दिनांक 11 अगस्त, 2015 निर्गत किया गया है ।

2. मेकॉन लि० के द्वारा किये जाने वाले कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने, समय-समय पर उचित दिशा - निर्देश देने एवं टाइम लाईन के अनुरूप विभिन्न कार्यों का संपादन सुनिश्चित करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में निम्नांकित रूप से एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (High Level Monitoring Committee) का गठन किया जाता है ।

1.	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
5.	नगर आयुक्त, रांची नगर निगम	सदस्य
6.	उपायुक्त, रांची	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, तकनीकी, जुडको लि०	सदस्य, सचिव

3. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह दूसरे एवं चौथे सोमवार को आहूत की जाएगी ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
